



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना 151) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2022

सं० 04/ऋ०पु०क०-20/2021-1297/आ०प्र०—वर्ष 1956-57 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आये 200 (दो सौ) शरणार्थी परिवारों में से प० चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत मंझौलिया थाना के लालसरैया गाँव में बसाये गये 15 (पन्द्रह) मालो परिवारों की जीविका का साधन करमवा मन जलकर की बन्दोबस्ती पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा की जा रही थी। वर्ष 2007 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०-1209 दि०-05.04.2007 के द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मंझौलिया थाना के लालसरैया स्थित करमवा मन जलकर खाता नं०-690, 98 खेसरा नं०-290, 2201, 01, 02 कुल रकबा— 348.55 एकड़ भूमि को उक्त 15 (पन्द्रह) मालों परिवारों के साथ बन्दोबस्ती करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को हस्तान्तरित किया गया।

आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती की कारवाई नहीं की जाती है। इस कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रणाधीन जिलों में पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी नहीं हैं। लालसरैया स्थित करमवा मन जलकर एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंध) नियम 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत आच्छादित है। ऐसी स्थिति में उसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए विशेष निगरानी एवं कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

राज्य में विभिन्न जलकरों की बन्दोबस्ती की कारवाई बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा की जाती है एवं इस कार्य हेतु उक्त विभाग के नियंत्रणाधीन समर्पित (Dedicated) पदाधिकारी एवं कर्मी भी हैं।

अतः दिनांक-23.03.2022 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मंझौलिया थाना के लालसरैया गाँव स्थित करमवा मन जलकर खाता नं०-690, 98 खेसरा नं०-290, 2201, 01, 02 कुल रकबा-348.55 एकड़ भूमि को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरित किया जाता है।

- I. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा लालसरैया स्थित करमवा मन जलकर की बन्दोबस्ती इस प्रकार की जाएगी कि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के आलोक में आर्द्रभूमि के प्राकृतिक चरित्र एवं स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- II. भविष्य में करमवा मन जलकर में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के स्तर से किसी योजना के क्रियान्वयन के पूर्व बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 151-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>